



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

राजिस्टर से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 345]
No. 345]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 1979/कार्तिक 11, 1901
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 1979/KARTIKA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

राज्य सभा सचिवालय

बोधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1979

सदस्य ने वास्तव में वायुमान द्वारा यात्रा की है और उसके साथ वस्तुतः कोई परिवार था तो वह अपने प्रतिपर्ण के अतिरिक्त उसे परिवार के विमान के टिकट का प्रतिपर्ण भी प्रस्तुत करेगा" शब्द रहे जायेंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 17-क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“17-क. (1) यदि कोई सदस्य इस प्रकार शारीरिक रूप से असमर्थ है कि उसे वायुमान द्वारा यात्रा में परिवार की अपेक्षा है तो वह, यथास्थिति, राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष को विद्ये जाने वाले आवेदन के साथ, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों के पैनल से एक प्रमाण पत्र संलग्न करेगा, जिसमें यह सत्यापित किया जाएगा कि असमर्थता स्थायी स्वरूप की है या अस्थायी स्वरूप की।

(2) यदि असमर्थता अस्थायी स्वरूप की है तो ऐसी असमर्थता की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी और प्रारम्भ में वह छह मास से अधिक की नहीं होगी।

(3) यदि सदस्य यह समझता है कि उपनियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के पश्चात् भी उसे विमान द्वारा यात्रा के लिए परिवार की अपेक्षा है, तो वह उपनियम (1) में निर्दिष्ट

सा.का.नि. 609(अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उप-धारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने अनुमोदित और पृष्ठ कर दिया है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) संशोधन नियम 1979 है।

2. संसद सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ता) नियम, 1957 (जिसमें इसमें इससे पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3-क के उपनियम (5) में, “विमान के निकट का प्रतिपर्ण” शब्दों के स्थान पर “विमान के टिकट का प्रतिपर्ण और ऐसे मामलों में जहां नेत्रहीन या शारीरिक रूप से असमर्थ

चिकित्सको के पैनल के समक्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, जिसे उपनियम (2) के उपबन्ध लागू होंगे, पुनः उपस्थित होगा।”।

[एफ. सं. आर. एस. 8/79-एम. एस. ए.]

श्री. शा. भालेराव, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 1979

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States, and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely :—

1. These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Amendment Rules, 1979.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said

Rules), in rule 3-A, in sub-rule (5), for the words “the counterfoil of the air ticket”, the words “the counterfoil of the air ticket and in cases where a blind or physically incapacitated Member had actually performed his journey by air and was actually accompanied by an attendant, he shall, in addition to his own counterfoil, produce the counterfoil of the air ticket of the attendant” shall be substituted.

3. After rule 17-E of the said Rules, the following rule shall be inserted, namely :—

“17-F. (1) A Member who is so physically incapacitated as to require an attendant to accompany him by air shall, along with his application addressed to the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be, append therewith a certificate from a panel of doctors of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, certifying the nature of incapacity whether permanent or temporary.

(2) If the nature of the incapacity is temporary, the period of such incapacity shall be specified and shall not initially exceed six months.

(3) If the Member feels that an attendant is required for travel by air along with him even after the period referred to in sub-rule (2), the Member shall appear again before the panel of doctors referred to in sub-rule (1) for obtaining a certificate to which the provisions of sub-rule (2) shall apply.”

[F. No. RS. 8/79-MSA]

S. S. BHALERAO, Secretary-General